

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 67]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 फरवरी 2014—माघ 12, शक 1935

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्र. बी-11-6-2013-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-11-6-2013-चौदह-2, दिनांक 6 नवम्बर 2013 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम रबी 2013-14 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें जिला विदिशा, जिला उज्जैन की खाचरोद तहसील, जिला भोपाल की बेरसिया तहसील एवं जिला होशंगाबाद की इटारसी तहसीलों की सूची में संशोधन कर उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2013 की संशोधित अधिसूचना

मौसम—रबी

वर्ष 2013-14

100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची

जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई-सरसों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
विदिशा	विदिशा	पीपलखेड़ा	00008	सुलतनिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00009	सांकलखेड़ाखुर्द	गेहूं सिंचित	-	-	-
			000010	कोठीचारकला	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00011	कोटरा लशकरपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00014	अरवरिया	गेहूं सिंचित	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00015	बिलोरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00016	पुरैनिया	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00017	गंगरवाड़ा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00018	थान्नेर	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00019	सनोटी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00020	सलैया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			00021	बर्से	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	-	-
			00022	पिपरिया अजीत	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	-	-
			00023	धमनोदा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00024	भूतपरासी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00025	कबूला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00026	पौआनाला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00027	बालाबरखेड़ा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00028	बामोरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00029	सायर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00030	करेला	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00031	खेजड़ा सुल्तान	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00032	खामखेड़ा कस्बा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			00033	बोरिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00034	करैयाहाट	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00035	परासीगूजर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00036	नीमखेड़ा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00041	चितोरिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
			00042	दुपारिया	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00043	हिनोतिया	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00044	कागपुर	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00045	गढला	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00046	मूंडरा सुरई	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00047	कोलिंजा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00048	अमऊखेड़ी	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00049	देवखजूरी	गेहूं सिंचित	-	-	-
			00050	सांकलखेड़ाकलां	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	-
	विदिशा 02		00012	गुरारिया लशकरपुर	गेहूं सिंचित			
			00013	छीरखेड़ा	गेहूं सिंचित			
			00037	जम्बार	गेहूं सिंचित			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00038	बागरी	गेहूं सिंचित			
			00039	इमलिया	गेहूं सिंचित			
			00040	करारिया लश्करपुर	गेहूं सिंचित			
			00051	लश्करपुर	गेहूं सिंचित			
			00052	खेरुआहाट	गेहूं सिंचित		चना	
			00053	खामखेड़ा लश्करपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00054	हरूखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00055	जीवाजीपुर	गेहूं सिंचित			
			00056	पैरवारा	गेहूं सिंचित		चना	
			00057	बैस	गेहूं सिंचित			
			00058	सुनपुरा	गेहूं सिंचित			
			00059	करैयाहवैली	गेहूं सिंचित			
			00060	कस्बा विदिशा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00061	शेरपुर मुंजप्ता	गेहूं सिंचित			
			00063	सोठिया	गेहूं सिंचित			
			00064	टीलाखेड़ी	गेहूं सिंचित			
			00065	पठारीहवेली	गेहूं सिंचित		चना	
			00066	चिड़ौरिया मुं.	गेहूं सिंचित		चना	
			00074	मूंडरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00075	पालकी	गेहूं सिंचित		चना	
			00078	पडरात	गेहूं सिंचित		चना	
			00079	ठरं	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00080	निटरीं	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00081	देहरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00082	पीपरहूंठा	गेहूं सिंचित		चना	
			00083	जैतपुरा	गेहूं सिंचित			
			00084	बरखेड़ाकछवा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00085	परसोराहवेली	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00086	हांसुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00087	देवराजपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00088	गुबरहेला	गेहूं सिंचित		चना	
			00089	मूंडरापरसूखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00090	भाटनी	गेहूं सिंचित		चना	
			00091	बेरखेड़ी अहमदपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00092	अहमदपुर कस्बा	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00093	डंगरवाड़ा	गेहूं सिंचित	-	चना	
			00094	सोंथर	गेहूं सिंचित		चना	
			00095	घाटखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00096	कांकरखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00097	करारिया अहमदपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित		
		वर्कलोड 03						
			00067	डाबर	गेहूं सिंचित		चना	
			00068	मिर्जापुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00069	मुंडराहरिसिंह	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00070	पांझ	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00071	किरमचीबंधेरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00072	भदारबड़ागांव	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00073	खरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00076	कुआखेड़ी	गेहूं सिंचित			
			00077	कराखेड़ी	गेहूं सिंचित			
	ग्यारसपुर	ग्यारसपुर						
			00001	चिरावटा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00002	इमलावदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00003	पथरई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00004	इन्दरवास	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00005	ऊहर कोटरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00006	ग्यारसपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00007	कोलुआधामनोद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00008	पिपरिया पाराशर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00009	दैयरपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00010	बासादेही	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00011	सेमराधामनोद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00012	बेहलोट	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00013	मढियाधामनोद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00014	धामनोद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00015	खिरियाजागीर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00016	चीकली	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00017	मोहम्मदगढ़	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00018	औलिंगा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00019	मानोरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00020	बंजरिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00021	सियासी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00022	धौखेड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00023	हैदरगढ़	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00024	बरवाई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00025	मदनई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00026	पचपेड़िया	गेहूं सिंचित		चना	
			00027	नोरजा	गेहूं सिंचित		चना	
			00028	कोलुआ जागीर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00029	गुन्नोठा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00030	मढियाजामन	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00031	मढियादरोई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00032	पुरागुंसाई	गेहूं सिंचित		चना	
			00033	कंजेला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00034	सीहोद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00035	बोरीरामपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00036	लखूली	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00037	घटेरा	गेहूं सिंचित			
	बासौदा	अम्बानगर 0						
			00001	ऊहर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00002	मेहमूदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00003	आटस	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00004	करहैया जागीर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00005	उकायला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00006	हरगनाखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00007	पड़रिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00008	बीलाढाना	गेहूं सिंचित		चना	
			00009	अम्बानगर	गेहूं सिंचित		चना	
			00011	निबोदिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00012	खरथरी	गेहूं सिंचित		चना	
			00013	आगासोद	गेहूं सिंचित		चना	
			00014	रोजरु	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00015	थनवाय	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00016	मसूदपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00017	किरवाया	गेहूं सिंचित		चना	
			00018	मुटर्वा	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00019	अरनोट	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00020	चुल्हेटा	गेहूं सिंचित		चना	
			00021	कुल्हार	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00022	बडवासा	गेहूं सिंचित		चना	
			00023	दाउद बासोदा	गेहूं सिंचित		चना	
			00024	सत्ताखेडी जाजोन	गेहूं सिंचित		चना	
			00025	बाबली	गेहूं सिंचित		चना	
			00026	लेहदरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00027	साहबा	गेहूं सिंचित		चना	
			00028	औरंगपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00029	भुंआरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00030	काजी किरौदा	गेहूं सिंचित		चना	
			00031	झिलीपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00032	पुरवाई चक	गेहूं सिंचित		चना	
			00033	बरेठ	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00034	भाटनी	गेहूं सिंचित		चना	
			00035	उदयपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
		बासोदा 02						
			00036	मुरादपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00037	आकाडोढा	गेहूं सिंचित		चना	
			00038	डिढोली	गेहूं सिंचित		चना	
			00039	कंजना	गेहूं सिंचित		चना	
			00040	रबरयाई	गेहूं सिंचित		चना	
			00041	हतौडा	गेहूं सिंचित		चना	
			00042	हरदूखेडी	गेहूं सिंचित		चना	
			00043	खेरुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00044	गंज	गेहूं सिंचित		चना	
			00047	महागौर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00048	पचम	गेहूं सिंचित		चना	
			00049	चौराबर	गेहूं सिंचित		चना	
			00050	गमाखर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00051	नोधई	गेहूं सिंचित		चना	
			00052	कूल्हा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00053	मढियासेमरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00054	पवई	गेहूं सिंचित		चना	
			00055	देरखी	गेहूं सिंचित		चना	
			00056	सोठिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00057	फरीदपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00058	सेमरा बासौद	गेहूं सिंचित		चना	
			00059	मूंडरा बासौदा	गेहूं सिंचित		चना	
			00060	तवक्कलपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00061	ककरावदा	गेहूं सिंचित		चना	
			00062	बसरिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00063	स्यारी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00064	नेगमा पिपरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00065	मोरोदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00066	बरखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00067	करोदाकला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00068	आटासेमर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00069	मासेर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
नटेरन	नटेरन 02							
			00001	एचदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00002	रजोदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00003	महू	गेहूं सिंचित		चना	
			00004	घोघरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00005	रायखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00006	सकराई	गेहूं सिंचित		चना	
			00007	पैरवासा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00008	बमूरिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00009	फूफेर	गेहूं सिंचित		चना	
			00010	जोगी किरौंदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00011	हसनपुर जाठोदा	गेहूं सिंचित		चना	
			00012	तिलातिली	गेहूं सिंचित		चना	
			00013	गुरोंद	गेहूं सिंचित		चना	
			00014	मरखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00015	बूधोरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00016	पड़रियाजागीर	गेहूं सिंचित		चना	
			00017	सोमवारा	गेहूं सिंचित		चना	
			00018	खड़ेर	गेहूं सिंचित		चना	
			00019	नानकपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00020	रमपुराकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			00021	आमखेड़ासूखा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00022	पिपरियाशमशाबाद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00023	आमखेड़ाकालू	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00024	महूआखेड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00025	पवारिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00026	नरखेड़ाखड़या	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00027	नागोर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00028	मूडरापीताम्बर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00029	रायपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00030	घटवाई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00031	दिघौनी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00032	जौहद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00033	सिलवायखजूरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00034	ताजखजूरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00035	खेराई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00036	नटेरन	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00037	सेऊ	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00038	रिनिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00039	मूंडराशेरपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00040	रावन	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00041	किस्वाखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00042	खाईखेड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00043	खजूरीदास	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
	कुरवाई	कुरवाई 01						
			00001	करईबेरखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00002	छीरखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00003	धारुखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00004	करहैया	गेहूं सिंचित		चना	
			00005	शेखपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00006	दादूरार	गेहूं सिंचित		चना	
			00007	नाउकुन्ड	गेहूं सिंचित		चना	
			00008	टेकू	गेहूं सिंचित		चना	
			00009	धुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00010	तमोइया	गेहूं सिंचित		चना	
			00011	इमलिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00012	बरवाई	गेहूं सिंचित		चना	
			00013	खजुरियाजागीर	गेहूं सिंचित		चना	
			00014	फतेहपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00015	नेहरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00016	वीरपुर	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00017	मदउखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00018	झगरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00019	काछीकुम्हरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00020	कांकर	गेहूं सिंचित		चना	
			00021	भौरासा	गेहूं सिंचित		चना	
			00022	कस्बाकुरवाई	गेहूं सिंचित		चना	
			00023	पाडोछा	गेहूं सिंचित		चना	
			00024	लचायरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00025	बासौदा	गेहूं सिंचित		चना	
			00026	मलियाखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00027	बरखेड़ा (लायरा)	गेहूं सिंचित		चना	
			00028	लायरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00029	जरगंवा	गेहूं सिंचित		चना	
			00030	राजपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00031	कैथोरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00035	पनावर	गेहूं सिंचित		चना	
			00037	रुसिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00038	ईसाखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00039	पैराखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00040	मेहलुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00041	रोशनपिपरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00043	माला	गेहूं सिंचित		चना	
			00044	पिथौली	गेहूं सिंचित		चना	
		पठारी 02						
			00032	बरुअल	गेहूं सिंचित		चना	
			00033	तलापार	गेहूं सिंचित		चना	
			00034	सीहोरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00036	बरेठा	गेहूं सिंचित		चना	
			00042	बजीराबाद	गेहूं सिंचित		चना	
			00045	कूल्हन	गेहूं सिंचित		चना	
			00046	विशनपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00047	पीकलोन	गेहूं सिंचित		चना	
			00048	लेटनी	गेहूं सिंचित		चना	
			00049	सिरावली	गेहूं सिंचित		चना	
			00050	नगवासा	गेहूं सिंचित		चना	
			00051	देवली	गेहूं सिंचित		चना	
			00052	सिरनोटा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00053	भैसवाहा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00054	गुदावल	गेहूं सिंचित		चना	
			00055	शहरवासा	गेहूं सिंचित		चना	
			00056	कौसी	गेहूं सिंचित		चना	
			00057	दतेरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00058	उकावद	गेहूं सिंचित		चना	
			00059	श्यामपुर गुदावल	गेहूं सिंचित		चना	
			00060	भालबामोरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00061	दुधावरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00062	मनेशा	गेहूं सिंचित		चना	
			00063	सिमरधान	गेहूं सिंचित		चना	
			00064	बन्द्रावठा	गेहूं सिंचित		चना	
			00065	धामोनीपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00066	बाबईखुर्द	गेहूं सिंचित		चना	
			00067	रामगढ़			चना	
			00068	खजूरियापठारी	गेहूं सिंचित		चना	
			00069	विसलोनी	गेहूं सिंचित		चना	
			00070	जाजपोन	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00071	पठारी	गेहूं सिंचित		चना	
			00072	छपारा	गेहूं सिंचित		चना	
			00073	मथुरापुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00074	बरखेड़ापठारी			चना	
			00075	बड़ोह			चना	
			00076	कांकलखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
	सिरोंज	सिरोंज 01						
			00018	झुकरहोज	गेहूं सिंचित		चना	
			00019	देवीटोरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00020	तरबरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00021	खेजड़ागोपाल	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00022	घुटुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00023	छापू	गेहूं सिंचित		चना	
			00024	चितावर	गेहूं सिंचित		चना	
			00025	महू	गेहूं सिंचित		चना	
			00026	नेकान	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00027	चुनियाखोह	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00028	इमलानी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00029	लिघोड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00030	चौड़ाखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00031	सांकलोन	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00032	मूंंडरावागल	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00033	विसैपुर		गेहूं असिंचित	चना	
			00037	कस्बा सिरोंज	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
		भगवंतपुर-02						
			00001	करईखेड़ाकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			00002	भगवन्तपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00003	मूंंडराघाट	गेहूं सिंचित		चना	
			00004	नरखेड़ाजागीर	गेहूं सिंचित		चना	
			00005	खेजड़ाहाली	गेहूं सिंचित		चना	
			00006	महूआखेड़ापृथ्वीराज	गेहूं सिंचित		चना	
			00007	भोजूखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00008	रतनबर्नी		गेहूं असिंचित	चना	
			00009	भौरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00010	प्यासी	गेहूं सिंचित		चना	
			00013	गेहूखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00014	अनूपपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00015	देवपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00016	सरवरपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00017	पगरानी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00036	पामाखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00038	काजीखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00039	सेमरखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00040	धानोदा	गेहूं सिंचित		चना	
		मुगलसराय 03						
			00011	अबु आढाना	गेहूं सिंचित		चना	
			00012	बासखेड़ी असपाल	गेहूं सिंचित		चना	
			00043	खोदूपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00044	कादरपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00045	भौरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00046	कचनारिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00047	सरेखो	गेहूं सिंचित		चना	
			00048	पिपरियाहाट	गेहूं सिंचित		चना	
			00049	मूंंडराधर्मू	गेहूं सिंचित		चना	
			00050	झण्डुआ	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00051	मुगलसराय	गेहूं सिंचित		चना	
			00052	सन्तोषपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00053	पैकोली	गेहूं सिंचित		चना	
			00054	भिंयाखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00055	बांसखेड़ीगूगल			चना	
			00056	कोरबासा	गेहूं सिंचित		चना	
			00059	गरेठा	गेहूं सिंचित		चना	
			00060	अमीरगढ़ उर्फ	गेहूं सिंचित		चना	
			00061	पारधा	गेहूं सिंचित			
		दीपना खेड़ा 04						
			00035	बगरोद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00041	करांखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00042	चाठोली	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00057	दामोदरखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00058	दीपनाखेड़ा		गेहूं असिंचित	चना	
			00062	त्रिभुवनपुर		गेहूं असिंचित	चना	
			00063	ललितपुर		गेहूं असिंचित	चना	
			00064	बामोरीशाला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00065	सालपुरकलां		गेहूं असिंचित	चना	
			00066	करैयाहाट		गेहूं असिंचित	चना	
			00067	रिनिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00068	प्याराखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00069	जगथर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00070	दीगनाखेड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00071	गोपालनगर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00072	रुसल्लीघाट		गेहूं असिंचित	चना	
			00073	हरगनाखेड़ी		गेहूं असिंचित	चना	
			00074	बड़ोदाताल		गेहूं असिंचित	चना	
			00075	बमूरियाताल		गेहूं असिंचित	चना	
			00088	सियलपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
		सियलपुर 05						
			00034	परसोरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00076	बरेज	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00077	गुलाबगंज	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00078	भटोली	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00079	ईकोदिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00080	देहरीजागीर	गेहूं सिंचित		चना	
			00081	बेरखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00082	इकलोद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00083	रुसल्लीदामा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00084	पथरिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00085	कस्बाताल	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00086	कूजा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00087	महादेवखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00089	सोना	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00090	घटवार	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00091	सुल्तानपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00092	सफदलपुरताल	गेहूं सिंचित		चना	
			00093	उनारसीताल	गेहूं सिंचित		चना	
			00094	घोसुआताल	गेहूं सिंचित		चना	
लटेरी	आनन्दपुर 01		00001	पढेराचाण्डू			चना	
			00002	मूंडरारतनसी	गेहूं सिंचित		चना	
			00003	उनारसीकला	गेहूं सिंचित		चना	
			00004	जरसेना	गेहूं सिंचित		चना	
			00005	नारायणखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00006	कालादेव	गेहूं सिंचित		चना	
			00007	सावनखेड़ीदेव	गेहूं सिंचित		चना	
			00008	चान्दबड़	गेहूं सिंचित		चना	
			00009	तीतरबरी	गेहूं सिंचित		चना	
			00010	अहमदनगर उर्फ	गेहूं सिंचित		चना	
			00011	ओखलीखेड़ाकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			00012	परवरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00014	जाबती	गेहूं सिंचित		चना	
			00015	आनन्दपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00016	खैरखेड़ीकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			00017	गोलाखेड़ीकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			00018	वापचा	गेहूं सिंचित		चना	
			00019	महोटी	गेहूं सिंचित		चना	
			00020	चमरउमरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00021	डोडाखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00022	बनारसी	गेहूं सिंचित		चना	
			00024	निसोबरी	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		लटेरी 02						
			00013	सुनखेर	गेहूं सिंचित		चना	
			00023	मढावता	गेहूं सिंचित		चना	
			00025	ईशरवास	गेहूं सिंचित		चना	
			00026	भटोली	गेहूं सिंचित		चना	
			00027	ताजपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00028	महावन	गेहूं सिंचित		चना	
			00029	कोलुआपठार	गेहूं सिंचित		चना	
			00030	लटेरी	गेहूं सिंचित		चना	
			00031	वीरपुरकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			00032	मोहब्बतपुर उर्फ	गेहूं सिंचित		चना	
			00033	ललचिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00034	बावनखेड़ीरुसल्ली	गेहूं सिंचित		चना	
			00035	काछीखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00036	रुसल्लीसाहू	गेहूं सिंचित		चना	
			00037	मसूडीउर्फ रामपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00038	रुसिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00039	बलरामपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00040	मुरवास	गेहूं सिंचित		चना	
			00041	धरगा	गेहूं सिंचित		चना	
			00043	मुरारिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00044	मूंडरासागर	गेहूं सिंचित		चना	
		शहरखेड़ा 03						
			00042	बरखेड़ाघोसी	गेहूं सिंचित		चना	
			00045	झूकरजोगी	गेहूं सिंचित		चना	
			00046	देहरीपामा	गेहूं सिंचित		चना	
			00047	बीजूखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00048	मुडेला	गेहूं सिंचित		चना	
			00049	बैरागढ़	गेहूं सिंचित		चना	
			00050	धीरगढ़	गेहूं सिंचित		चना	
			00051	अगरापठार	गेहूं सिंचित		चना	
			00052	मुस्करा	गेहूं सिंचित		चना	
			00053	सेमरीअहीर	गेहूं सिंचित		चना	
			00054	तिलोनी	गेहूं सिंचित		चना	
			00055	जमुनियाकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			00056	सेमरामेघनाथ	गेहूं सिंचित		चना	
			00057	नैनवासकलां	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00058	शहरखेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00059	गोपालपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00060	दनवास	गेहूं सिंचित		चना	
			00061	सिरारी	गेहूं सिंचित		चना	
			00062	टोंकरा	गेहूं सिंचित		चना	
	शमशाबाद	शमशाबाद 01						
			00001	कोलुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00002	महूटा	गेहूं सिंचित			
			00003	सिंगरामपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00004	भियाखेड़ी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00005	बरोदिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00006	शमशाबाद	गेहूं सिंचित			
			00007	बरोदा	गेहूं सिंचित		चना	
			00008	पाली	गेहूं सिंचित		चना	
			00009	बरुआखार	गेहूं सिंचित		चना	
			00010	जमनयाई	गेहूं सिंचित			
			00011	डंगरवाड़ा	गेहूं सिंचित			
			00012	रुसल्ली	गेहूं सिंचित			
			00013	बामोरी	गेहूं सिंचित			
			00014	करैया	गेहूं सिंचित			
			00015	नेहरयाई	गेहूं सिंचित		चना	
			00016	बिछिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00017	धोबीखेड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00018	अमरपुरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00019	पिपलधार	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00020	इमलिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00021	बींझ	गेहूं सिंचित		चना	
			00022	मोही	गेहूं सिंचित			
			00023	बेरखेड़ीकिरार	गेहूं सिंचित			
			00024	बर्धा	गेहूं सिंचित		चना	
			00025	बरखेड़ा माखू	गेहूं सिंचित		चना	
			00026	हड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00027	सांगुल	गेहूं सिंचित		चना	
			00028	हीरापुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00029	थाना	गेहूं सिंचित		चना	
			00030	रमपुराजागीर	गेहूं सिंचित			
			00031	बरखेड़ाजागीर	गेहूं सिंचित		चना	
			00032	बीलखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00033	हींगली	गेहूं सिंचित		चना	
			00034	साढ़ेर	गेहूं सिंचित		चना	
			00035	बाढ़ेर	गेहूं सिंचित		चना	
			00036	हिनोतियामाली	गेहूं सिंचित		चना	
			00037	भरना खेड़ा	गेहूं सिंचित		चना	
			00038	जीरापुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00039	सतपाड़ाहाट	गेहूं सिंचित		चना	
			00040	करमेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00041	नादिया	गेहूं सिंचित			
			00042	लखार	गेहूं सिंचित		चना	
	त्योंदा	त्योंदा 03						
			00001	दैलवाड़ा	गेहूं सिंचित			
			00002	मूडरी	गेहूं सिंचित			
			00003	भिलाय	गेहूं सिंचित		चना	
			00004	हामिदपुर	गेहूं सिंचित		चना	
			00005	अमारी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00006	महौली त्योंदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00007	मुराहर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00008	उकायला	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00009	सैरवासा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00010	खैरोदा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00011	मैनवाड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00012	खामखेड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00013	पचपीपरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00014	पिपराहा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00015	पिपरिया दौलत	गेहूं सिंचित		चना	
			00016	रसूलपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00017	त्योंदा	गेहूं सिंचित		चना	
			00018	रीछई	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00019	घटेरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00020	आबूपुर उर्फ कुचौली	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00021	बारौद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00022	सिरनोटा	गेहूं सिंचित		चना	
			00023	करोंदाखुर्द	गेहूं सिंचित		चना	
			00024	भिदवासन	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00025	सौसेरा	गेहूं सिंचित		चना	
			00026	अनवई	गेहूं सिंचित		चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00027	सतपाड़ाकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			00028	बरमढी	गेहूं सिंचित		चना	
			00029	लगधा	गेहूं सिंचित		चना	
			00030	गौड़खेड़ीमार	गेहूं सिंचित		चना	
			00031	विसधा	गेहूं सिंचित		चना	
			00032	कस्बा बागरोद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00033	बूढी बागरोद	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
गुलाबगंज	गुलाबगंज		00001	इकोदिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00002	अंडियाकलां	गेहूं सिंचित		चना	
			00003	संतापुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00004	पिपरिया गुनुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00005	मुंगवारा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00006	लखंगार	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00007	घोसुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00008	गुनुआ	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00009	चक रघुनाथपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00010	गूलरखेड़ी	गेहूं सिंचित			
			00011	गुलाबगंज	गेहूं सिंचित			
			00012	एरन	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00013	धतूरिया	गेहूं सिंचित		चना	
			00014	बरीघाट	गेहूं सिंचित		चना	
			00015	सुमेरबरी	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00016	मढीचौबीसा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00017	हतियाखेड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00018	सौजना	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00019	वनजागीर	गेहूं सिंचित		चना	
			00020	मेहरुखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00021	मूंडरागुनुआ	गेहूं सिंचित		चना	
			00022	चाठोली	गेहूं सिंचित		चना	
			00023	सुआखेड़ी	गेहूं सिंचित		चना	
			00024	सिमरहार	गेहूं सिंचित		चना	
			00025	नादौर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00026	मढीपुर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00027	अटारीखेजड़ा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			00028	दीघोरा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00029	अम्बार	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00030	खेजड़ा पड़रात	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00031	नौलास	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00032	बंडवा	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00033	बरखेड़ा गंभीर	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	
			00034	झिरनिया	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत रबी 2013 की संशोधित अधिसूचना

मौसम—रबी		वर्ष 2013-14			100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची			
जिला	तहसील	रा.नि.म. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	राई सरसों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
उज्जैन	खाचरोद	बड़गांवा	55	खामरिया	गेहूं सिंचित	-	चना	-
भोपाल	बेरसिया	बेरसिया	00068	इमलिया नरेन्द्र	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			00069	बरी छीरखेड़ा	गेहूं सिंचित	-	चना	-
होशंगाबाद	इटारसी	केसला	51	पिपरियाखुर्द	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			52	छीतापुर	गेहूं सिंचित	-	चना	-
			54	साधपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-
			56	चौकीपुरा	गेहूं सिंचित	-	-	-